



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2003/माघ 29, 1924

No. 51]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2003/MAGHA 29, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2003

सं. एफ. 2(1)/19/2002-ईपीजेड.—भारत सरकार एतद्वारा प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास बोर्ड (जिसे इसके बाद जोन विकास बोर्ड कहा जाएगा) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे—

- |  |         |
|--|---------|
| (1) क्षेत्र का विकास आयुक्त                        | अध्यक्ष |
| (2) क्षेत्र में तैनात सीमाशुल्क                    | सदस्य   |
| (3) संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामांकित दो अधिकारी | सदस्य   |
| (4) विकासकर्ता द्वारा नामांकित एक व्यक्ति          | सदस्य   |

क्षेत्रीय बोर्ड किसी अन्य विभाग अथवा एजेंसी और यूनिटों, क्षेत्र के निवासियों जैसे हितबद्ध ग्रुपों से विशेष आमंत्रितों के रूप में किसी विशिष्ट प्रयोजनार्थ, जैसा वह उचित समझे, सहयोग प्राप्त कर सकता है।

## जोन विकास बोर्ड की शक्तियां और कार्य

2. विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास करने के लिए बोर्ड की शक्तियां और कार्य इस प्रकार होंगे:-

(क) अपेक्षित शुल्क अथवा कर के भुगतान के बिना क्षेत्र में बुनियादी संरचना के विकास प्रचालन और रख-रखाव के लिए माल और सेवाओं के आयात अथवा घरेलू खरीद का अनुमोदन करना,

(ख) उपर्युक्त (क) के अनुसार आयातित/खरीदी गई सामग्रियों के उपयोग पर निगरानी रखना,

(ग) परियोजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन के लिए अन्य विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय करना

(घ) राज्य सरकार अथवा इसकी एजेंसियों द्वारा यथा प्रत्यायोजित कार्य,

(ङ.) केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अन्य कोई कार्य ।

विकास आयुक्त उन शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जो उसे केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं ।

डी. के. मित्तल, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2003

**No. F. 2(1)/19/2002-EPZ.**—The Government of India hereby constitutes a Special Economic Zone Development Board, (hereinafter called "Zone Development Board") for each of the Special Economic Zone consisting of the following members :

(1) The Development Commissioner  
of the Zone.

Chairperson

(2) Deputy / Assistant Commissioner  
of Customs posted in the zone

Member

- (3) two officials nominated by the  
State Government concerned

Members

- (4) A nominee of the developer

Member

The Zonal Board may co-opt any other department or agency and representatives from interested groups such as Units, residents within the Zone, as special invitees, as it deems fit, for any specific purpose.

### **Powers and functions of the Zone Development Board**

2. To secure the development of the Special Economic Zone, the powers and functions of the Board shall be as under:

- (a) to approve import or domestic procurement of goods and services for development, operation and maintenance of infrastructure in the Zone without payment of duty or tax;
- (b) to monitor utilisation of materials imported/procured as per (a) above;
- (c) to co-ordinate with other departments and other agencies for the smooth implementation of the projects;
- (d) functions as may be delegated by the State Government or its agencies;
- (e) any other function as may be notified by the Central Government.

The Development Commissioner shall exercise such powers and perform such duties as may be delegated to him by the Central Government or the State Government.

D. K. MITTAL, Jt. Secy.

### **अधिसूचना**

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2003

सं. एफ. 2(1)/19/2002-ईपीजेड.— भारत सरकार एतद्वारा प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए एक इकाई अनुमोदन समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:-

- |     |   |         |
|-----|---|---------|
| (1) | विकास आयुक्त  | अध्यक्ष |
| (2) | केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित अपने अधिकारी जो दो से अधिक नहीं होंगे (जोन में तैनात अधिकारियों में से) | सदस्य   |
| (3) | राज्य सरकार द्वारा नामांकित अपने अधिकारी जो दो से अधिक नहीं होंगे (जोन में तैनात अधिकारियों में से)   | सदस्य   |

डी. के. मित्तल, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th February, 2003

No. F. 2(1)/19/2002-EPZ.— The Government of India hereby constitutes a Unit Approval Committee for each of the Special Economic Zone consisting of the following members :

- (1) Development Commissioner      Chairperson
- (2) Officers of the Central      Members  
Government nominated by it  
not exceeding two (from amongst the officers posted in the Zone)
- (3) Officers of the State Government      Members  
nominated by it not exceeding two  
(from amongst the officers posted in the Zone)
- (4) The nominee of the      Member.  
developer

The Development Commissioner may co-opt nominees of any Department, agency, and interested group as special invitees as he deems fit.

**Powers and functions of the Unit Approval Committee:**

2. The powers and functions of the Unit Approval Committee shall be as under:
  - (a) to consider applications for setting up of Units in Zone and grant or refuse approval;
  - (b) to monitor the performance of the Units and take action against the Units wherever necessary as prescribed under the rules;
  - (c) to take appropriate action in case of violation of the conditions of the approval;
  - (d) to supervise and monitor permission, clearances, licences granted to the Units and take appropriate action in accordance with law;
  - (e) to call for information required to monitor the performance of the Unit under the permission, clearances, licenses granted to it;
  - (f) to perform any other function delegated by the Central Government or its agencies.

45/GZ/2003—2

- (g) to perform any other function as may be delegated by the State Governments or its agencies.
  - (h) to grant all approvals and clearances for the establishment and operation of Units in the Special Economic Zone.
3. The Central Government and its agencies may delegate, their powers to the Unit Approval Committee under the relevant laws so as to enable the Committee,-
- (a) to prescribe common application form for any license, permission or registration under one or more laws;
  - (b) to authorize Development Commissioner to exercise the powers of the Central Government or its agencies;
  - (c) to notify an officer or agency, including accredited private agencies for carrying out inspections under various laws;
  - (d) to exempt the zone from one or more provisions of any Central Law;
  - (e) to prescribe single return for reporting under two or more Central Laws .

D. K. MITTAL, Jt. Secy.